



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1968/अग्रहायण 1, 1890

No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1968/AGRAHAYANA 1, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November 1968

S.O. 4204.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and after consultation with the Food Corporation of India, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. S.O. 2944, dated the 1st October, 1966, constituting an Advisory Committee.

[No. F. 7-2/66-FCC.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

(1337)